



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1941 (श10)

(सं0 पटना 37) पटना, बुधवार, 15 जनवरी 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2020

एस० ओ० 78 दिनांक 15 जनवरी 2020—बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 के नियम 1 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कर आयुक्त, 15 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 के उपबंध लागू होंगे।

[(सं० सं० बिक्री-कर/विविध-48/2019-160)]

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जनवरी 2020

एस० ओ० 78 दिनांक 15 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/विविध-48/2019-160)]

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15<sup>th</sup> January 2020

S.O. 78 Dated 15<sup>th</sup> January 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 1 of the Bihar Settlement of Taxation Dispute Rules, 2020, the Commissioner of State Tax hereby appoints the 15<sup>th</sup> day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Rules, 2020, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/vividh-48/2019-160)]

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 37-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>